

एक छोटे से गांव के पूरे होते बड़े सपने : तरुण विजय बनाएंगे तेवा गांव को विश्व ख्याति का आदर्श पर्यटन ग्राम

By : INVC Team Published On : 27 Jan, 2016 09:13 PM IST



आई एन वी सी न्यूज़ तेवा /उत्तराखंड , आज सांसद तरुण विजय ने मसूरी से ३० kms दूर ग्राम तेवा में 37 जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण ग्राम सभा की बैठक ली और इस ग्राम को केवल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश के प्रसिद्ध पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर विचार किया. उन्होंने यहाँ ग्राम पर्यटन विकसित कर अंतर राष्ट्रीय पर्यटकों को इस मार्ग से गढ़वाल की अनछुई प्राकृतिक विरासत देखने हेतु आकृष्ट करने की तीन योजनाएं स्वीकृत कीं-एक सत्तर लाख की लागत से झील का निर्माण, दो-ग्राम पर्यटन विकास हेतु युवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण और तीन दुगड्डा -तेवा सड़क मार्ग का डामरीकरण

इसके साथ ही सांसद तरुण विजय ने तैंतीस विभिन्न योजनाओं -झील निर्माण, स्कूलों में कम्प्यूटर,, सिंचाई नहर और बैंक शाखा -पर प्रशासन से वार्ता कर स्वीकृति दिलवाई तथा प्रत्येक योजना की पूर्ती हेतु तिथियाँ भी निर्धारित कीं अभी तक सांसद तरुण विजय अपनी सांसद निधि से तेवा में पचपन लाख रुपये समस्या सामुदायिक भवन, स्थानीय स्कूल में कम्प्यूटर ,प्राचीन नाग देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण आदि के लिए दे चुके हैं उन्होंने स्थानीय रुग्ण नागरिकों की सहायता के लिए एक फ़ोर्स ब्रांड की मजबूत एम्बुलेंस भी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया , इस गांव में आज तक न कोई उत्तराखंड का सांसद आया न ही कभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। यह वह गाँव है जहाँ तेरहवीं शती का अदभुत प्राचीन शैली का नाग मंदिर है और जहाँ से नाग टिब्बा के लिए एक अनिर्वचनीय सुन्दर मार्ग है, जो प्रायः पर्यटन विश्व से अछूता है. लगभग आधी जनसँख्या अनुसूचित जाति के नागरिकों की है, पर निकट तम चिकित्सा केंद्र पंद्रह किमी है कोई बैंक शाखा नहीं है

इस गांव को श्री तरुण विजय ने अपना आदर्श ग्राम घोषित किया तो ग्रामीण सुखद आश्चर्य में पड़ गए

स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक सांसद ने जिला स्तरीय ३७ अधिकारियों की स्थानिय स्कूल में बैठक ली तो स्त्री, पुरुष और बच्चें सब एकत्र हो गए सांसद तरुण विजय ने कहा कि भारत ग्राम स्वराज्य के कारण ही अविजेय रहा है तेवा ग्राम में स्थानीय सहयोग से स्वावलम्बी स्वराज्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे

श्री तरुण विजय ने भावुक होकर कहा कि एक छोटे से गांव ने अचानक बड़े से सपने देखने शुरू किये है- क्योंकि इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सपने ग्रामीणों तक बाँटें हैं

इस महत्वपूर्ण बैठक का संयोजन सांसद प्रतिनिधि भोला सिंह परमार ने किया. बैठक में विशेष अतिथि के रूप में विधायक महावीर सिंह रांगढ़ ,श्री तरुण विजय के प्रदेश स्तरीय सांसद प्रतिनिधि श्री जोगिन्दर पुंडीर एवं विश्व ख्याति के चित्रकार श्री यशवंत दत्त जी थे. टिहरी के सभी विभागों से सैंतीस जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया

URL :

<https://www.internationalnewsandviews.com/suddenly-a-village-has-begun-to-dream-bigmp-tarun-vijayteva-village-story-tev-a-village-by-tarun-vijaytarun-vijay/>

www.internationalnewsandviews.com